



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 139]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, फरवरी 7, 2002/माघ 18, 1923

No. 139]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 7, 2002/MAGHA 18, 1923

संचार मंत्रालय

( दूरसंचार विभाग )

लाइसेंसिंग ग्रुप ( मूल्यवर्द्धित सेवा सैल ) ( वीएएस सैल )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2002

का.आ. 171(अ).—केन्द्रीय सरकार भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 3) की धारा 19ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग), लाइसेंसिंग ग्रुप (बुनियादी सेवा कक्ष) की अधिसूचना सं. का.आ. 646(अ) तारीख 9 सितम्बर, 1997 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(क) प्रथम पैराग्राफ में “प्राइवेट बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रचालक(कों)” शब्दों तथा कोष्ठक के स्थान पर “प्राइवेट बुनियादी अथवा सेल्यूलर टेलीफोन सेवा प्रचालक(कों)” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए “सेवा” से उक्त अनुज्ञापिधारी के नेटवर्क पर आईएसडीएन (एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क) की सुविधाओं सहित वॉयस अथवा नॉन वॉयस संदेशों के प्रेषण अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत तार अथवा बेतार माध्यम पर वॉयस अथवा नॉन वॉयस का प्रसारण नहीं है।”

[ सं. 842-47/98-वीएएस (भाग) ]

जें. आर. गुप्ता, उप महानिदेशक/संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS****(Department of Telecommunications)****Licensing Group (Value Added Services Cell)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th February, 2002

**S.O. 171(E).**—In exercise of the powers conferred by section 19B of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Communications (Department of Telecommunications), Licensing Group (Basic Service Cell) number S.O. 646(E) dated 9th September, 1997, namely :—

In the said notification—

- (a) in the first paragraph, for the words and brackets, “private basic telephone service operator(s)”, the words and brackets “private basic or cellular telephone service operator(s)” shall be substituted;
- (b) for the Explanation, the following explanation shall be substituted, namely :—

“**Explanation :** For the purpose of this notification, “service” means transmission of voice or non-voice messages inclusive of ISDN (Integrated Service Digital Network) facilities over the said licensee’s Network and does not include, broadcasting of voice or non-voice message over wire or wireless media.”

[No. 842-47/98-VAS (Part)]

J. R. GUPTA, Dy. Director General /Jt. Secy.